



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 2012/अग्रहायण 12, 1934

No. 618]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2012/AGRAHAYANA 12, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग )

आदेश

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 871(अ)/आ.व./ईख.—केन्द्रीय सरकार ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उपखण्ड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और एसोसिएशनों जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझती हो, से परामर्श करने के पश्चात् 9.5% चीनी की मूल रिकवरी से सम्बद्ध गन्ने के 145.00 रुपये प्रति क्विंटल की उचित तथा लाभकारी कीमत जो इस स्तर से अधिक रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि के लिए 1.53 रुपये के प्रीमियम की शर्त के अध्यधीन हो, के आधार पर एतद्वारा इसके साथ उपबंधित अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस उचित तथा लाभकारी कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर 30 सितम्बर, 2012 को समाप्त होने वाले चीनी वर्ष 2011-2012 के लिए परिदत्त ईख के लिए संदेय होगी, किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा:

“बशर्ते कि जहां खरीद केन्द्रों से मिलों के द्वार तक गन्ने की ढुलाई के लिए परिवहन व्यय चीनी मिल मालिकों द्वारा वहन किया जाता है, वहां 38 पैसा प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर की दर पर ढुलाई रिबेट का भुगतान अधिकतम 7.65 रुपए प्रति क्विंटल की शर्त के अध्यधीन किया जाएगा।

इस शर्त के अद्यधीन भी कि 'उचित तथा लाभकारी मूल्य' से उपर्युक्त दुलाई रिबेट की अनुमति केवल उन चीनी मिलों के लिए होगी जो समय से गन्ना मूल्य का भुगतान करते हैं और गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 के अनुसार देय ब्याज सहित गन्ना मूल्य के समस्त बकाया का भुगतान करते हैं।"

### अनुसूची

क्रम सं०	प्लांट कोड	प्लांट का नाम	कारखाने का नाम व पता	उचित तथा लाभकारी मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)
उत्तर प्रदेश				
1	60401	गुलरिया	गुलरिया चीनी मिल्स (बलरामपुर चीनी मिल्स की एक इकाई) गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी, उ०प्र०	145.00
2	09001	तुलसीपुर	तुलसीपुर चीनी कंपनी(बलरामपुर चीनी मिल्स लि० की एक इकाई), तुलसीपुर, जिला बलरामपुर (उत्तर प्रदेश)	146.53
3	03701	सिम्भावली	सिम्भावली चीनी मिल्स प्रा० लि०, सिम्भावली जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	145.00
4.	07702	खलीलाबाद	खलीलाबाद चीनी मिल्स प्रा० लि० खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश)	145.00
5	62801	बिकापुर	बघौली शुगर एंड डिस्टिलरी लि०, ग्राम बिकापुर, पोस्ट सुतेरा, वाया माधोगंज, जिला हरदोई, (उ०प्र०)	145.00
महाराष्ट्र				
6	40001	शिरूर	घोडगंगा एस०एस०के० लि०, रावसाहेबनगर, नहावारे, तालुका शिरूर, जिला पुणे, (महाराष्ट्र)	166.42
7	46801	मुरूम	श्री विठ्ठल साई एस एस के लि०, राजीव गांधी नगर, मुरूम, तालुका ओमेरगा, जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)	175.60
आन्ध्र प्रदेश				
8	25401	तिरुपति	श्री वेंकटेश्वर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लि०, तिरुपति, गजूलामंडायम, जिला चित्तूर (आंध्र प्रदेश)	145.00
कर्नाटक				
9	30902	बास	बन्नारी अम्मान शुगर लि०, आलागांची गांव, नंजनगुड, जिला मैसूर (कर्नाटक)	163.36

10	28801	महेश्वर/ कोलेगल	महेश्वर शुगर्स लि०, कुंदूर गांव, कोलेगल, जिला चामराजनगर (कर्नाटक)	166.42
11	64401	मुण्डारगी	मुण्डारगी एस०एस०के० लि०, गांव गंगापुर, तालुका मुण्डारगी, जिला गडग (कर्नाटक)	151.12
12	66901	कोलावी	गोकक शुगर्स लिमिटेड, कोलावी, तालुका गोकक, जिला बेलगाम (कर्नाटक)	178.66
तमिलनाडु				
13	30401	नेल्लीकुप्पम	ईआईडी पैरी (इंडिया) लि०, नेल्लीकुप्पम, दक्षिण कुडालूर (तमिलनाडु)	145.00
14.	30301	कावेरी	ई०आई०डी० पैरी (इंडिया) लि०, जिला पेट्टावैथली, जिला त्रिची (तमिलनाडु)	145.00
15	25802	पुगालूर	ई आई डी पैरी (इंडिया) लि०, पुगालूर शुगर फैक्ट्री, डाकघर, जिला करूर, (तमिलनाडु)	146.53

[फा. सं. 3-4/2011-एसपी-II]

अधीर झा, निदेशक (एसडीएफ)

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

(Department of Food and Public Distribution)

**ORDER**

New Delhi, the 3rd December, 2012

**G.S.R. 871(E)/Ess. Com./Sugarcane.**— In exercise of the powers conferred by **Clause 3 of Sugarcane (Control) Order, 1966** and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, Bodies and Associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the 'fair and remunerative price' of sugarcane at **Rs. 145.00 per quintal linked to a basic recovery of 9.5% sugar** subject to a premium of **Rs. 1.53 for every 0.1% point increase** in the recovery above that level hereby fixes the price specified in column (4) of the Schedule hereto annexed as the 'fair and remunerative price' that shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factories specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule or their agents for the sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year **2011-2012 ending the 30<sup>th</sup> September, 2012** subject to the rebates payable therefor under clause 3A of the said Order

"Provided that where the transportation cost is borne by Sugar Mill Owners in the transportation of Sugarcane, from purchase centres to mills' gate payment of transport rebate

at the rate of 38 Paise per quintal per kilometre shall be made subject to a maximum of rupees 7.65 per quintal for Sugarcane delivered for purchase at any purchasing Centre connected by rail or road.

Provided further that the aforesaid transport rebate from 'Fair and Remunerative Price' shall be allowed only to those sugar mills which make cane price payment timely and clear all arrears of cane payment dues, together with due interest as per clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966".

#### SCHEDULE

S. No.	Plant Code	Plant name	Name and Address of the sugar mill	Fair and Remunerative Price (Rs. Per quintal)
<b>UTTAR PRADESH</b>				
1	60401	Gularia	Gularia Chini Mills (A unit of Balrampur Chini Mills Ltd.), Gularia, District—Lakhimpur- Kheri (U.P)	145.00
2	09001	Tulsipur	Tulsipur Sugar Company (A unit of Balrampur Chini Mills Ltd.), Tulsipur, District- Balrampur (U.P)	146.53
3	03701	Simbhaoli	Simbhaoli Sugar Mills Pvt. Ltd., Simbhaoli, District- Ghaziabad (U.P)	145.00
4	07702	Khalilabad	Khalilabad Sugar Mills Pvt. Ltd. Khalilabad, District-Sant Kabir Nagar (U.P)	145.00
5	62801	Bikapur	Bhagauli Sugar & Distillery Ltd., village-Bikapur, Post- Sautera via Madhoganj, District- Hardoi (U.P)	145.00
<b>MAHARASHTRA</b>				
6	40001	Shirur	Ghodganga S.S.K. Ltd., Raosaheb Nagar, Nhavare, Taluka-Shirur, District-Pune [Maharashtra]	166.42
7	46801	Murum	Shri Vitthalsai S.S.K. Ltd., Rajiv Gandhi Nagar, Murum, Taluka- Omerga, District- Osmanabad [Maharashtra]	175.60
<b>ANDHRA PRADESH</b>				
B	25401	Tirupati	Sri Venkateshwara Cooperative Sugar Factory Ltd., Tirupati, Gajulamandyam, District Chittoor (A.P)	145.00
<b>KARNATAKA</b>				
9	30902	BAS,	Bannari Amman Sugars Ltd., Alaganchi village, Nanjangud, District- Mysore (Karnataka)	163.36
10	28801	Maheshwara / Kollegal	Maheshwara Sugars Ltd., Kunthur village, Kollegal, District- Chamarajanagar (Karnataka)	166.42
11	64401	Mundargi	Mundargi S.S.K. Ltd., village Gangapur, Taluka Mundargi, District-Gadag(Karnataka)	151.12

12	66901	Kolavi	Gokak Sugars Ltd., Kolavi, Taluka Gokak, District-Belgaum (Karnataka)	178.66
<b>TAMIL NADU</b>				
13	30401	Nellikuppam	E.I.D. Parry (India) Ltd., Nellikuppam, District- Cuddalore(T.N)	145.00
14	30301	Cauvery	E.I.D. Parry (India) Ltd., Pettavaithalai, District-Trichy (T.N)	145.00
15	25802	Pugalur	E.I.D. Parry (India) Ltd., Pugalur Sugar Factory P.O., District- Karur (T.N)	146.53

[F. No. 3-4/2011-SP-II]

ADHIR JHA, Director (SDF)

4473 5/12-2